



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 आषाढ़ 1941 (श10)

(सं0 पटना 844) पटना, शुक्रवार, 19 जुलाई 2019

सं0 ल०ज०सं०/बजट(अनुपूरक)45/16-5008

लघु जल संसाधन विभाग

संकल्प

19 जुलाई 2019

विषय:- लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के अंतर्गत सभी राजकीय नलकूपों की मरम्मत, संचालन एवं रख-रखाव को पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायतों को सौंपने से संबंधित निर्गत विभागीय संकल्प संख्या 992 दिनांक 04.02.2019 की कंडिका को संशोधित करने के संबंध में।

राज्य के किसानों को सहजतापूर्वक सिंचाई की समुचित सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के अंतर्गत सभी राजकीय नलकूपों की मरम्मत, संचालन एवं रख-रखाव को पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायतों को सौंपने से संबंधित विभागीय सं० ल०ज०सं०/बजट(अनुपूरक)45/16-992 दिनांक 04.02.2019 निर्गत किया गया है। (परिशिष्ट-1)

2. उक्त संकल्प की कंडिका-3 में बिजली बिल के भुगतान की प्रक्रिया एवं शर्त विहित की गई है।

3. उक्त संकल्प (परिशिष्ट-1) की कंडिका-3 में "बिजली बिल का भुगतान पंचायत द्वारा किया जायेगा, क्योंकि अब बिजली बिल लगभग रुपये 2000/- (दो हजार रुपये) प्रतिमाह रहने की संभावना है। किसी भी नलकूप का पुराना बिल विभाग द्वारा वहन किया जायेगा" को निम्न प्रकार संशोधित एवं प्रतिस्थापित किया जाता है।

"बिजली बिल का भुगतान निर्धारित दर प्रति यूनिट के अनुसार पंचायत द्वारा किया जायेगा। बिजली का मीटर किराया, अन्य टैक्स, जी०एस०टी०, विलंब शुल्क एवं अन्य अधिभार का भुगतान विभाग द्वारा किया जायेगा। पंचायत को नलकूप हस्तगत करने के पूर्व का बकाया बिजली बिल विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।"

4. विभागीय संकल्प सं० ल०ज०सं०/बजट(अनुपूरक)45/16-992 दिनांक 04.02.2019 की अन्य शर्तें एवं कड़िकायें पूर्ववत् प्रभावी रहेगी।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इसक संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 844-571+1000-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>